



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1931 (श०)
(सं० पटना 101) पटना, मंगलवार, 7 अप्रील 2009

सं० 3ए-3भत्ता—02/2009/2894/वि०(2)

वित्त विभाग

संकल्प

4 अप्रील 2009

विषय- लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के अवसर पर चुनाव कर्मियों को समेकित दर पर यात्रा एवं दैनिक भत्ता भुगतान करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं—

1. भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में संचालित लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले चुनाव कर्मियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार भुगतान किया जाएगा—

क्रमांक	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य पर भुगतान दर	मतदान/ मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान/ मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1	2	3	4	5	6
1	पीठासीन पदाधिकारी	दो/तीन	रु० 250 प्रति दिन	तीन	रु० 250 प्रति दिन
2	मतदान अधिकारी एक एवं दो	दो/तीन	रु० 175 प्रति दिन	तीन	रु० 175 प्रति दिन

क्रमांक	कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य पर भुगतान दर	मतदान/ मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान/ मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1	2	3	4	5	6
3	मतदान अधिकारी तीन (चतुर्थ वर्गीय कर्मी)	दो/तीन	रु0 125 प्रति दिन	तीन	रु0 125 प्रति दिन
4	सेक्टर पदाधिकारी/ जोनल/ गश्ती दल दंडाधिकारी	एक	रु0 250 प्रति दिन	एक मुश्त	रु0 800 एक मुश्त
5	सरकारी चालक	--	--	दो/तीन	रु0 175 प्रति दिन
6	मतगणना पर्यवेक्षक	एक	रु0 250 प्रति दिन	एक	रु0 250 प्रति दिन
7	मतगणना सहायक	एक	रु0 175 प्रति दिन	एक	रु0 175 प्रति दिन
8	माइक्रो प्रेक्षक	एक	रु0 250 प्रति दिन	एक मुश्त	रु0 1000 एक मुश्त

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं। सुरक्षित रखे गए कर्मियों को, जो निर्वाचन कर्तव्य पर आवश्यकता होने पर लगाए जाने के लिए निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहें, उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

2. इसी प्रकार चुनाव कार्यों पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार भुगतान किया जाएगा—

क्रमांक	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	प्रशिक्षण प्राप्ति के दिनों की संख्या	प्रशिक्षण कार्य पर भुगतान की दर	मतदान/ मतगणना के दिनों की संख्या	मतदान/ मतगणना कार्य पर भुगतान दर
1	पुलिस निरीक्षक/ पुलिस अवर निरीक्षक	एक	रु0 250 प्रति दिन	दो/तीन	रु0 250 प्रति दिन
2	सहायक अवर निरीक्षक/हवलदार/ सिपाही	एक	रु0 175 प्रति दिन	दो/तीन	रु0 175 प्रति दिन
3	गृह-रक्षक/ चौकीदार/ दफादार/एन0सी0सी0 कैडेट/ चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मी	एक	रु0 125 प्रति दिन	दो/तीन	रु0 125 प्रति दिन

उपर्युक्त भुगतान की राशि में यात्रा एवं दैनिक भत्ता दोनों सम्मिलित हैं।

3. मतदान/मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों को भोजन/नाश्ता 100 रुपये प्रतिदिन की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, एवं जहां ऐसा करना संभव नहीं हो, वहां 100 रुपये प्रतिदिन की दर से नगद भुगतान किया जाएगा।

4. समेकित दर पर यात्रा एवं दैनिक भत्ता भुगतान के लिय विस्तृत यात्रा विपत्र समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों को यथासंभव चुनाव कार्य हेतु प्रस्थान करने से पूर्व समेकित दर पर यात्रा/दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायगा एवं इस भुगतान की प्राप्ति रसीद को ही वाउचर माना जायगा, परन्तु यह कि निर्वाचन कार्य में भाग नहीं लेने पर इसकी वसूली संबंधित कर्मों के वेतन से दृढ़तापूर्वक की जायगी। यात्रा व्यय के लिए अग्रिम के रूप में कोषागार से निकासी की गई राशि का समायोजन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1011 दिनांक 17-02-09 के अनुसार किया जाएगा।

5. यह राशि संबंधित मुख्य शीर्ष "2015-निर्वाचन"/"2055-पुलिस" के अंतर्गत विषय शीर्ष "यात्रा व्यय" में किए गये बजट उपबंध से विकलनीय होगी।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
नवीन कुमार,
प्रधान सचिव।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय पुलिस महा निरीक्षक/उप महा निरीक्षक/ सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अरूनीश चावला,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 101-571+500-डी0टी0पी0।